



CHICAGO HOUSING
AUTHORITY™

ध्यान दें:

अगर आपने अपना आवास पसंद करने के सर्वे में आपके रहने लायक स्थान के रूप में मैडन पार्क या इडा बी. वेल्स होम्स को सूचीबद्ध किया है, तो कृपया नीचे दी गई जानकारी पढ़ें।

ड्राफ्ट टिनंट सिलेक्शन प्लान (TSP), लीज, और ओकवूड शोर्स (जो एक मिश्रित-आय वाला समुदाय है) के अन्य दस्तावेज समीक्षा के लिए उपलब्ध हैं। डेवलपर, कम्युनिटी बिल्डर्स इंक., ग्रेनाइट डेवलपमेंट और UJIMACHA और ओकवूड शोर्स वर्किंग ग्रुप के साथ मिलकर एक निजी रूप से विकसित संपत्ति ओकवूड शोर्स में उपयोग के लिए ड्राफ्ट TSP और लीज बनाने के लिए काम कर रहा है। CHA के लिए नामित इस संपत्ति की आवासीय इकाइयों का उपयोग पूर्व के मैडन पार्क और इडा बी. वेल्स होम्स के उन निवासियों के लिए प्रतिस्थापन सार्वजनिक आवासीय इकाइयों के रूप में किया जाएगा, जिन्होंने अपने स्थायी आवास को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में नहीं चुना है। ओकवूड शोर्स के फेज का विकास शिकागो में निम्न सीमाओं से घिरे हुए क्षेत्र में स्थित होगा: उत्तर में ईस्ट 37th प्लेस, पूर्व में साउथ एलिस अवेन्यू, दक्षिण में ईस्ट पर्शिग रोड और पश्चिम में साउथ विन्सेंस।

Angela Hurlock
Chairperson

Craig Chico
Vice-Chairman

Matthew Brewer
Dr. Mildred Harris
Meghan Harte
James Matanky
Debra Parker
Bill Thanoukos
Francine Washington
Board of Commissioners

CHA द्वारा आम जनता की ओर से लिखित में टिप्पणियां प्राप्त करने की 30 दिनों की अवधि 17 नवम्बर से प्रारंभ होकर 16 दिसम्बर 2020 तक जारी रहेगी। COVID-19 के कारण, CHA ने लोगों की प्रत्यक्ष उपस्थिति वाली सभी सार्वजनिक बैठकों को निलंबित कर दिया है और इसके बजाय, CHA लोगों की टिप्पणी की एक सुनवाई को लाइवस्ट्रीम करेगा। लोगों की टिप्पणियों की लाइव स्ट्रीम सुनवाई की तारीख और समय निम्न प्रकार से है:

बुधवार, दिसम्बर 2, सुबह 10:00 बजे: www.thecha.org/livestream

Tracey Scott
Chief Executive Officer

James L. Bebley
Chief Operating Officer

हम चाहते हैं कि ओकवूड शोर्स से संबंधित टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से commentontheplan@thecha.org पर लाइवस्ट्रीम सुनवाई से कम से कम 48 घंटे पहले सबमिट किया जाए। ऊपर उल्लिखित समय के दौरान टिप्पणियों को लाइव पढ़ा जाएगा। सुनवाई के बाद प्राप्त टिप्पणियां टिप्पणी ग्रीड में जोड़ दी जाएंगी।

अगर आपको अनुवाद सेवाओं की आवश्यकता है, तो कृपया संलग्न नोटिस पढ़ें या अधिक जानकारी के लिए अपने संपत्ति प्रबंधक से बात करें।

योजना का सारांश और ओकवूड शोर्स की पूरी TSP और लीज CHA की वेबसाइट पर यहाँ www.thecha.org पर उपलब्ध होगा जो नवम्बर 17 से प्रारंभ होकर दिसम्बर 16, 2020 तक रहेगा। आप ड्राफ्ट ओकवूड शोर्स TSP के लिए टिप्पणियां मेल या फैक्स भी कर सकते हैं। **सभी टिप्पणियां दिसम्बर 16, 2020 शाम 5:00 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।**

डाक, ईमेल या फैक्स द्वारा टिप्पणियां यहाँ भेजें:

- शिकागो हाउसिंग अथॉरिटी
- ध्यान दें: ड्राफ्ट ओकवूड शोर्स TSP और लीज
- 60 ई. वान बूरेन स्ट्रीट, 12^{वीं} मजिल
- शिकागो, IL 60605
- commentontheplan@thecha.org
- फैक्स 312. 913.7837

Chicago Housing Authority
60 E. Van Buren
12th Floor
Chicago, IL 60605
0312-742-8500
www.thecha.org

यदि इस सूचना के संबंध में आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कृपया सीएचए को 312.913-7300 पर कॉल करें।

उचित आवास व्यवस्था का अनुरोध करने के लिए, कृपया 312.913.7062 पर कॉल करें।

TTY 866.331.3603